

कामाख्या चालीसा

Kamakhya Chalisa Hindi Lyrics

॥ दोहा ॥

सुमिरन कामाख्या करूँ, सकल सिद्धि की खानि ।
होइ प्रसन्न सत करहु माँ, जो मैं कहौँ बखानि ॥

जै जै कामाख्या महारानी ।
दात्री सब सुख सिद्धि भवानी ॥

कामरुप है वास तुम्हारो ।
जहँ ते मन नहिं टरत है टारो ॥

ऊँचे गिरि पर करहुँ निवासा ।
पुरवहु सदा भगत मन आसा ।

ऋद्धि सिद्धि तुरतै मिलि जाई ।
जो जन ध्यान धरै मनलाई ॥

जो देवी का दर्शन चाहे ।
हृदय बीच याही अवगाहे ॥

प्रेम सहित पंडित बुलवावे ।
शुभ मुहूर्त निश्चित विचारवे ॥

अपने गुरु से आज्ञा लेकर ।
यात्रा विधान करे निश्चय धर ।

पूजन गौरि गणेश करावे ।
नान्दीमुख भी श्राद्ध जिमावे ॥

शुक्र को बाँयें व पाछे कर ।
गुरु अरु शुक्र उचित रहने पर ॥

जब सब ग्रह होवें अनुकूल ।
गुरु पितु मातु आदि सब हूला ॥

नौ ब्राह्मण बुलवाय जिमावे ।
आशीर्वाद जब उनसे पावे ॥

सबहिं प्रकार शकुन शुभ होई ।
यात्रा तबहिं करे सुख होई ॥

जो चह सिद्धि करन कुछ भाई ।

मंत्र लेइ देवी कहँ जाई ॥

आदर पूर्वक गुरु बुलावे ।

मन्त्र लेन हित दिन ठहरावे ॥

शुभ मुहूर्त में दीक्षा लेवे ।

प्रसन्न होई दक्षिणा देवै ॥

ॐ का नमः करे उच्चारण ।

मातृका न्यास करे सिर धारण ॥

षडङ्ग न्यास करे सो भाई ।

माँ कामाक्षा धर उर लाई ॥

देवी मन्त्र करे मन सुमिरन ।

सन्मुख मुद्रा करे प्रदर्शन ॥

जिससे होई प्रसन्न भवानी ।

मन चाहत वर देवे आनी ॥

जबहिं भगत दीक्षित होइ जाई ।

दान देय ऋत्विज कहँ जाई ॥

विप्रबंधु भोजन करवावे ।

विप्र नारि कन्या जिमवावे ॥

दीन अनाथ दरिद्र बुलावे ।

धन की कृपणता नहीं दिखावे ॥

एहि विधि समझ कृतारथ होवे ।

गुरु मन्त्र नित जप कर सोवे ॥

देवी चरण का बने पुजारी ।

एहि ते धरम न है कोई भारी ॥

सकल ऋद्धि - सिद्धि मिल जावे ।

जो देवी का ध्यान लगावे ॥

तू ही दुर्गा तू ही काली ।

माँग में सोहे मातु के लाली ॥

वाक् सरस्वती विद्या गौरी ।

मातु के सोहैं सिर पर मौरी ॥

क्षुधा, दुरत्यया, निद्रा तृष्णा ।

तन का रंग है मातु का कृष्णा ।

कामधेनु सुभगा और सुन्दरी ।
मातु अँगुलिया में है मुंदरी ॥
कालरात्रि वेदगर्भा धीश्वरि ।
कंठमाल माता ने ले धरि ॥
तृषा सती एक वीरा अक्षरा ।
देह तजी जानु रही नश्वरा ॥
स्वरा महा श्री चण्डी ।
मातु न जाना जो रहे पाखण्डी ॥
महामारी भारती आर्या ।
शिवजी की ओ रहीं भार्या ॥
पद्मा, कमला, लक्ष्मी, शिवा ।
तेज मातु तन जैसे दिवा ॥
उमा, जयी, ब्राह्मी भाषा ।
पुर हिं भगतन की अभिलाषा ॥
रजस्वला जब रुप दिखावे ।
देवता सकल पर्वतहिं जावें ॥
रुप गौरि धरि करहिं निवासा ।
जब लग होइ न तेज प्रकाशा ॥
एहि ते सिद्ध पीठ कहलाई ।
जउन चाहै जन सो होई जाई ॥
जो जन यह चालीसा गावे ।
सब सुख भोग देवि पद पावे ॥
होहिं प्रसन्न महेश भवानी ।
कृपा करहु निज - जन असवानी ॥

॥ दोहा ॥

कहैं गोपाल सुमिर मन, कामाख्या सुख खानि ।
जग हित माँ प्रगटत भई, सके न कोऊ खानि ॥

Kamakhya Chalisa in English Lyrics

॥ Doha ॥

Sumiran Kamakhya Karun, Sakal Siddhi Ki Khaani.
Hoi Prasann Sat Karahu Maa, Jo Main Kahau Bakhani.

Jai Jai Kamakhya Maharani.
Datri Sab Sukh Siddhi Bhavani.

Kamarup Hai Vaas Tumharo.
Jahan Te Man Nahin Tarat Hai Taro.

Oonche Giri Par Karahun Nivasa.
Puravahu Sada Bhagat Man Aasa.

Riddhi Siddhi Turatai Mili Jaai.
Jo Jan Dhyan Dharai Manlaai.

Jo Devi Ka Darshan Chaahe.
Haday Beech Yaahi Avagaathe.

Prem Sahit Pandit Bulvaave.
Shubh Muhurt Nishchit Vicharave.

Apne Guru Se Aagya Lekar.
Yatra Vidhan Kare Nishchay Dhar.

Poojan Gauri Ganesh Karave.
Nandimukh Bhi Shraddh Jimave.
Shukra Ko Baayen Va Paachhe Kar.
Guru Aru Shukra Uchit Rahne Par.

Jab Sab Grah Hoven Anukoola.
Guru Pitu Maatu Aadi Sab Hoola.

Nau Brahman Bulvaay Jimave.
Aashirvaad Jab Unse Paave.

Sabahin Prakar Shakun Shubh Hoi.
Yatra Tabahin Kare Sukh Hoi.

Jo Chah Siddhi Karan Kachhu Bhai.
Mantra Lei Devi Kahan Jaai.

Aadar Poorvak Guru Bulave.
Mantra Len Hit Din Thaharave.

Shubh Muhurt Mein Deeksha Leve.
Prasann Hoi Dakshina Devai.

Om Ka Namah Kare Uchcharan.
Matrika Nyas Kare Sir Dharan.

Shadang Nyas Kare So Bhai.
Maa Kamaksha Dhar Ur Laai.

Devi Mantra Kare Man Sumiran.
Sanmukh Mudra Kare Pradarshan.

Jisse Hoi Prasann Bhavani.
Man Chahat Var Deve Aani.

Jabahin Bhagat Deekshit Hoi Jaai.
Daan Dey Ritvij Kahan Jaai.

Viprabandhu Bhojan Karvave.
Vipra Naari Kanya Jimvave.

Deen Anaath Daridra Bulave.
Dhan Ki Kripanta Nahin Dikhave.

Ehi Vidhi Samajh Kritaarth Hove.
Guru Mantra Nit Jap Kar Sove.

Devi Charan Ka Bane Pujari.
Ehi Te Dharam Na Hai Koi Bhaari.

Sakal Riddhi-Siddhi Mil Jaave.
Jo Devi Ka Dhyan Lagave.

Tu Hi Durga Tu Hi Kali.
Maang Mein Sohe Matu Ke Laali.

Vaak Saraswati Vidya Gauri.
Matu Ke Sohain Sir Par Mauri.

Kshudha, Duratyaya, Nidra Trishna.
Tan Ka Rang Hai Matu Ka Krishna.

Kamadhenu Subhaga Aur Sundari.
Matu Anguliya Mein Hai Mundari.

Kalratri Vedgarbha Dheeshwari.
Kanthmaal Mata Ne Le Dhari.

Trisha Sati Ek Veera Akshara.
Deh Taji Jaanu Rahi Nashwara.

Swara Maha Shri Chandi.
Matu Na Jaana Jo Rahe Pakhandi.

Mahamari Bharati Arya.
Shivji Ki O Rahin Bharya.

Padma, Kamala, Lakshmi, Shiva.
Tej Matu Tan Jaise Diva.

Uma, Jayi, Brahmi Bhasha.
Pur Hi Bhagatan Ki Abhilasha.

Rajaswala Jab Roop Dikhave.
Devta Sakal Parvatahi Jaaven.

Roop Gauri Dhari Karahin Nivasa.
Jab Lag Hoi Na Tej Prakasha.

Ehi Te Siddh Peeth Kahlai.
Jaun Chahai Jan So Hoi Jaai.

Jo Jan Yah Chalisa Gaave.
Sab Sukh Bhog Devi Pad Paave.

Hohin Prasann Mahesh Bhavani.
Kripa Karahu Nij-Jan Asavani.

॥ Doha ॥

Karhe Gopal Sumir Man, Kamakhya Sukh Khaani.
Jag Hit Maa Pragat Bhai, Sake Na Kou Khaani.

कामाख्या चालीसा